

BERVIN INVESTMENT AND LEASING LIMITED
607, ROHIT HOUSE, 3, TOLSTOY MARG, NEW DELHI-110001
CIN : L65993DL1990PLC039397
Email Id: secretary@bervin.com; Website: www.bervin.com**NOTICE**

It is hereby informed that the “**Trading window**” is being closed in compliance to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, with effect from April 1, 2023.

The closure is in connection with the finalization of financial statements/ results for the quarter and year ending on March 31, 2023 and would re-open after 48 hours from the announcement/declaration of the said financial results. The date of Board Meeting for declaration of the said financial results, shall be intimated in due course of time on the website of the Company at www.bervin.com and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com

By Order of the Board
For BERVIN INVESTMENT AND LEASING LIMITED
Sd/-
Kalpana Umakanth
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 31/03/2023

HDB बैंक लिमिटेड एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: गोंधका, 2रा तल, नई गार्डन रोड, नवमंथरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोड-380005
संस्थापक अध्यक्ष: एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई-145, रोडम मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कैन, जयपुर राजस्थान 302001

जैसा कि, एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आंतरिकीय के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदान शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित समर्थन के कारण सूचना में उल्लिखित तथा भुगतान को कार्रवाई तब तक समस्त लागूगी, प्रभावी एवं व्यर्थों का कविर सूचना को प्रतिक्रिया को तब तक 60 दिनों के भीतर पुनर्गुप्तन करने को करते हुए नहीं सूचना जारी की जाेगी। अधिकृत कर्जदार/सह-कर्जदार के राशि के पुनर्गुप्तन में असफल रहने के कारण एल्ट्राग्रा कर्जदार/सह-कर्जदार तथा नजामातन् को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कविर निर्णयों के नियम 8 के साथ पठित कविर अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदान शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित समर्थन का उल्लेख तथा उल्लिखित विधि पर सांकेतिक कक्षा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा नजामातन् को अनुमति समर्थन के साथ कोन-नेशन-देन न करने को चेतावनी दी जाती है और समर्थन के साथ लेन-देन सम्बन्ध तब तक जारी रखा जायेगा, लागत तथा प्रभावी सहित यदि निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/सह-कर्जदार/नजामती को विवरण, अज्ञात संख्या, अज्ञेय की राशि, प्रतिभूति का विवरण, मूल सूचना की तिथि, कविराजक तिथि, कक्षा करने की तिथि नीचे दी गयी है :

1) कर्जदार/सह-कर्जदार/नजामती का नाम एवं पता: 2) अज्ञात संख्या 3) अज्ञात की राशि; 4) प्रतिभूती का विवरण; 5) मूल सूचना की तिथि; 6) कविराजक तिथि क. में, 7) कक्षा करने की तिथि

कर्जदार और सह-कर्जदार का नाम: मेरस मोहम्मद अल्लम एंड संस, सी-एन नई सक्की मंडी कोला बीन कोला कोला सिटी-324006 – रोड शाह – मकान नंबर 30 ई-विकि विहार रामचंद्रगु कोला – कोला – 324007 – मोहम्मद अल्लम – चौबटोरे के मंदिर के पास गिजागर के पीछे – बुजराज गुप्ता कोला कोला-324006 – मोहम्मद अल्लम – खसरा नंबर –253, प्लॉट नंबर –30, रॉक विहार ग्राम रामचंद्रगु हस्तीन – लाहपुरी जिला कोला – 324007 – नसरतून यू – हाउस नंबर 13 चौबटोरे के मंदिर के पास बुजराज गुप्ता कोला कोला-324006 – मोहम्मद अल्लम – 30 होली फैमिली अल्लम के पीछे रॉक विहार 1 बोरखेड़ा कोला कोला –324001 – मेरस मोहम्मद अल्लम एंड संस – खसरा नंबर –253, प्लॉट नंबर –30, रॉक विहार ग्राम रामचंद्रगु हस्तीन – लाहपुरी जिला कोला –324007 – मेरस मोहम्मद अल्लम एंड संस – बुजराज संख्या –91, बॉक नंबर-91, एडोमिन कोले के पास नई धारा मंडी गरीब – उजब मंडी सहित कोला हस्तीन लाहपुरी जिला कोला कोला –324001; अज्ञात संख्या 2957499 और 1576219 अज्ञात राशि: रु. 2145000 (एस्पे इन्वेस्ट लाइ फाइनेल ग्राम एस्पे सी डब्ल्यू) अज्ञात संख्या 2957499 अज्ञात राशि एस्पे 816000 (एस्पे इन्वेस्ट लाइ फाइल ग्राम) अज्ञात संख्या 1576219 अज्ञात राशि एस्पे 816000, मूल सूचना तिथि: 09.12.2021 को आई ऑफिस: रु. 11372321.72 (एस्पे एक कर्जदार एस्पे लाइ फाइल इन्वेस्ट सी डब्ल्यू और कर्जदार एस्पे राशि) 07 दिसंबर, 2021 तक और कार्रवाई करनी तक पूर्वी संचालनक व्यवस्था के साथ-साथ आकस्मिक व्यवस्था, लागत और शुल्क आदि; प्रतिभूति का विवरण: सीपी संख्या 1; अज्ञात नंबर 253, प्लॉट नंबर 30, रॉक विहार ग्राम रामचंद्रगु, हस्तीन लाहपुरी, जिला कोला –324001 का समस्त भाग, भाग 183.35 वर्ग मीटर और मोहम्मद अल्लम के नाम पर वर्ग 1, पंजीकरण-पट्टा-पुलक संख्या 1, सीएन नंबर 2012005973, संस की सीमाएं: पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: सड़क, 30.10.2012, उत्तर-दक्षिण के कार्यालय-कोला के साथ पंजीकृत, संस की सीमाएं: पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 25 और 26; दक्षिण: प्लॉट नंबर 31; सीपी नंबर 2; कुलान नंबर 01, सीपी नंबर-1, एस्पेड्रोम सफल के पास, नई धारा मंडी कृषि खेप मंडी सहित, कोला, हस्तीन लाहपुरी, जिला कोला-324001 का समस्त भाग, 348.50 वर्ग मीटर, मेरस मोहम्मद अल्लम एंड संस प्रोप्राइटर अल्लम के नाम पर रु.12 है, पंजीकरण-पट्टा-पुलक: कुल नंबर 1, अज्ञात संख्या 2005030969, रॉड संख्या 958, प्लॉट संख्या 111, दिनांक 24.12.2005 को उत्तर-पंजीकरण के कार्यालय – कोला के माध्यम से, संस की सीमाएं: पूर्व: सड़क, पश्चिम: अन्य कुलान, उत्तर: कुलान संख्या 92, दक्षिण: कुलान संख्या 90, 7) कक्षा की तिथि: 28.03.2023 और 29.03.2023।

कर्जदार और सह-कर्जदार का नाम: मुल्लोपाया फैमिल प्रोप्राइटर लिमिटेड, बुद्ध प्लाज 2रस, सिडिकेट बैंक के ऊपर, मेरस मोहम्मद सईद हारस भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ-311001 राजस्थान – और साथ ही – मेरस मोहम्मद पल्ल वल्लस विहार भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ-311001 – विनयक रंजटा – 41 मुकेशम वैश्व नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ राजस्थान – 311001 –राजा कौरटा –41 मुकेशम वैश्व नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ राजस्थान – 311001 –दीपक रंजटा – बुद्ध प्लाज 2रस, सिडिकेट बैंक के ऊपर, मेरस स सईद हारस भीलवाड़ा एचओ राजस्थान – 311001 – दीपक रंजटा, 41 मुकेशम वैश्व नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ-311001 राजस्थान: अज्ञात संख्या 8594188/14358681: अज्ञात राशि: रुपये 18916744/- (एस्पे एक कर्जदार नजामती लाइ सफल हजार राशि सी सीपी नंबर 1) अज्ञात संख्या 8594188 अज्ञात राशि रु. 12094000 (एस्पे एक कर्जदार नजामती लाइ सफल हजार राशि सी सीपी नंबर 1) अज्ञात संख्या 14358681 अज्ञात राशि सीपी दिनांक: 06.04.2022, धारा की गई तिथि: रु. 20155292 (एस्पे दो कर्जदार एक लाइ सफल हजार सी सीपी नंबर 1) 04.04.2022 तक और प्रासंगिक व्यवस्था, लागत और शुल्क आदि सहित कार्रवाई करनी तक पूर्वी संचालनक व्यवस्था, प्रतिभूति का विवरण: सीपी संख्या 1; अज्ञात नंबर 97-नं (बेरा 166.66 वर्ग मीटर) और प्लॉट संख्या 98-नं (बेरा 166.66 वर्ग मीटर) पर विनयक रंजटा का समस्त भाग, योजना आयोग नगर नं, जयपुर राजस्थान, नोडम शर्मा के पक्ष में पंजीकृत, संस की सीमाएं – उत्तर: सड़क, दक्षिण – रोड, पूर्व- प्लॉट नंबर 91-99, पश्चिम- प्लॉट नंबर सी- 96, 7) कक्षा की तिथि: 27.03.2023

प्रतिभूत आंतरिकीय को बुद्धन के लिए उल्लेखित सम-समा के फॉरेक्स् में कर्जदार का ध्यान आर्जनस को धारा 13 को उपधारा (8) की नीचे आकस्मिक विद्या जाती है।

किसी पुनरागत के लिए कृपया समक के: श्री प्रशान्त गदो, दूरभाष : 9928818000, एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड ई-145, रोडम मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कैन, जयपुर राजस्थान 302001

स्थान : जयपुर, तिथि : 31.03.2023 ह./- कृते एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी

टाटा कैपिटल हॉउसिंग फाइनंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पोलिवुड लिजिंस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, लोहार पोल, मुम्बई-400013 सीआरएफ : U67190HM12008PLC187552
मांग सूचना
वित्तीय आंतरिकीय के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) व धारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (“नियम”) के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (“अधिनियम”) के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हॉउसिंग फाइनंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के तहत तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदान शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम को धारा 13(2) के तहत नीचे सूचितक कर्जदार(री)/सह-कर्जदार(री)/नजामती(यों) (राशि को अकेले या एक साथ “अधिव्यवर्ती” नजामती/अधिकृत उदाधिकारी(यों)/विविध प्रतिभूति(यों) से सम्बन्ध मूल सूचनाओं में उल्लिखित शक्तियों का नीचे दिवने एवं विशेषणों के अनुसार सम्बन्ध सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को करते हुए मूल सूचना निर्गत को नहीं। अधिकृत सूचनाओं को प्रतियोगी पंजीकृत डाक ए.सी. द्वारा भेजी गयी थी और अधोहस्ताक्षरी के पास उपस्थित है तथा कविर दायित्वप्राप्ति/विविध उदाधिकारी/विविध प्रतिभूति यदि चाहे तो किसी भी कार्यालय पर कार्यालयी शर्तों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्ध प्रति अज्ञात कर सकते हैं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में एल्ट्राग्रा डाक बर पुनः कविर दायित्वप्राप्ति(यों)/विविध उदाधिकारी(यों)/विविध प्रतिभूति(यों) को सूचना दी जाती है कि ये सम्बन्ध सूचनाओं की तिथि से उनके सम्बन्ध नामों के सम्बन्ध नीचे वर्णित शक्तियों का कविर दायित्वप्राप्ति(यों) द्वारा अज्ञात के साथ पठित तथा अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियापत, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (दो) में वर्णित सम्बन्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार पाली व्याज सहित सम्बन्ध सूचनाओं की प्रतिन के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। अज्ञा के बकाया पुनर्गुप्तन हेतु प्रतिभूति को मूल में क्रमशः कविर दायित्वप्राप्ति(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नीलिखित प्रतिभूति आंतरिकीय(यों) बन्धक रखी गयी है।

अनुबंध सं. दायित्वप्राप्ति(यों)/विविध उदाधिकारी(यों)/विविध प्रतिभूति(यों) के नाम	निम्नीलिखित तिथियों तक कुल बकाया राशि रु.*	मांग सूचना की तिथि एस्पेरी की तिथि
10331622 श्री नवीन कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमती सीता देवी (सह-कर्जदार)	तिथि 21/03/2023 तक राशि रु. 16,83,793/- (एस्पे सीलर सख तिरासी हारत राशि तिथिगत मास)	21-03-2023 05-03-2023

प्रतिभूत आंतरिकीय/अचल संपत्तियों/बन्धक संपत्तियों का विवरण: आवासीय प्लॉट (छा के अधिकार के साथ) का समस्त भाग, आवासीय संपत्ति का हिस्सा, प्लॉट नंबर सी-3/40 पर निर्मित, भाग 55.5 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 184 में शामिल, भूमि/प्लॉट में अनुप्रतिक, अधिवास्त, अभाष्य और अधिभाष्य स्वामित्व अधिकारों के साथ, ग्राम नवादा के राजस्व एस्टेट, भगवती गार्डन एस्टेट/नगर, ब्लॉक-सी, उमर नगर, नई दिल्ली -110059 में स्थित, सेल डीड में दर्ज/सहित सभी सम्बन्ध सूचिकाओं के साथ। प्लॉट नंबर सी-3/40 की सीमाएं – पूर्व – अज्ञात प्लॉट नंबर सी-3/39, पश्चिम – अज्ञात प्लॉट नंबर सी-3/41, उत्तर –रोड 20', दक्षिण – अन्य भूमि

मांग सूचना की तिथि एस्पेरी की तिथि	तिथि 24/03/2023 तक राशि रु. 28,65,773/- (एस्पे अटवाइर सख पैरदा हजार राशि सी तिथिगत मास)	24-03-2023 08-12-2021
587 (कर्जदार) तथा श्रीमती 6 अलका (सह-कर्जदार)		

प्रतिभूत आंतरिकीय/अचल संपत्तियों/बन्धक संपत्तियों का विवरण: आवासीय संपत्ति युनिट/प्लेट नंबर 905, 09वीं मंजिल का समस्त भाग, भाग 1060 वर्ग मीटर, टावर जैज, रिदम सी कार्टोटी, प्लॉट नंबर जोगेय-16ई, सेक्टर-01, डेवर नोएडा (सेक्टर), उत्तर प्रदेश में स्थित।

मांग सूचना की तिथि एस्पेरी की तिथि	तिथि 24/03/2023 तक राशि रु. 18,65,610/- (एस्पे अटवाइर सख पैरदा हजार रु. सी दस मास)	24-03-2023 09-03-2023
982 श्री इमरान खान (कर्जदार)		
823 तथा श्री आनन्दप्रदीप खान (सह-कर्जदार)		

प्रतिभूत आंतरिकीय/अचल संपत्तियों/बन्धक संपत्तियों का विवरण: आवासीय प्लॉट संख्या ई – 8/2 का समस्त भाग, माप 213.20 वर्ग फीट (सहस्र – पूर्व – 45', पश्चिम – 40', उत्तर – 7' + 45', दक्षिण – 52'), सीज गैंगी मार्ग, प्लॉट नंबर के अंदर, मधुरा, हस्तीन और जिला मधुरा – 281006 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, सेल डीड में लिखी सम्बन्ध सूचिकाओं के साथ। सीमाएं: पूर्व- प्लॉट नंबर ई –7, पश्चिम-रोड 30' चौड़ा, उत्तर-प्लॉट नंबर डी-14, दक्षिण-प्लॉट नंबर ई-8/1

*उपरोक्त सम्बन्ध मांग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी व्याज, अतिरिक्त व्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभावी आदि सहित भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक व्यय। यदि कविर दायित्वप्राप्ति उपर्युक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में असफल होगी तो टीसीएचएफएल कविर अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रवर्तन नियमों के तहत लागत तथा परिणामों के लिए पूर्ण रूप से कविर दायित्वप्राप्ति(यों)/विविध उदाधिकारी(यों)/विविध प्रतिभूति(यों) के अधिनियम पर उपर्युक्त प्रतिभूत आंतरिकीय(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कविर दायित्वप्राप्ति(यों)/विविध उदाधिकारी(यों)/विविध प्रतिभूति(यों) को कविर अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आंतरिकीय(यों)/अचल संपत्ति(यों) को फिरो, पट्टे या अन्य विधि से टीसीएचएफएल की पूर्ण लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल तथा अथवा जुर्माना का उत्तरदायी होगा।

तिथि : 01.04.2023 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली कृते टाटा कैपिटल हॉउसिंग फाइनंस लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated March 01, 2023 the “Letter of Offer” or (“LOF”) filed with the NSE (“NSE”).

**Bright Solar Limited**

Our Company was originally incorporated as Bright Solar Limited, as a Limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated April 23, 2010 issued by Registrar of Companies, Dadra and Nagar Haveli, Gujarat. Consequently upon the conversion of our Company into public limited company, the name of our Company was changed to “Bright Solar Limited” and fresh Certificate of Incorporation dated January 29, 2018 was issued by the Assistant Registrar of Companies, Dadra and Nagar Haveli, Gujarat. For details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled “History and Certain Corporate Matters” beginning on page no. 90 of this Letter of Offer.

Corporate Identification Number: L51109GJ2010PLC060377
Registered office: C-602, Titanium Square, Near Thaltej Circle, Thaltej, Ahmedabad - 38005. Telephone No.: +917498326868
Contact Person: Ritendrasinh Kishorsinh Rathod, Company Secretary and Compliance Officer,
E-mail: compliance@brightsolar.co.in; Website: www.brighotsolarindia.com;

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. PIYUSHKUMAR BABUBHAI THUMAR		
ISSUE PROGRAMME		
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSSES ON**
April 03, 2023	April 06, 2023	April 10, 2023

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncers on or prior to the Issue Closing Date.

Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ISSUE OF UP TO 46,00,000 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH (“RIGHTS EQUITY SHARES”) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS. 10.00 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 0.00 EACH PER RIGHTS EQUITY SHARE (“ISSUE PRICE”) FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4.60 CRORES* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 2 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 9 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, FEBRUARY 06, 2023 (THE “RECORD DATE”), THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE “TERMS OF THE ISSUE” ON PAGE 152.

*ASSUMING FULL SUBSCRIPTION WITH RESPECT TO RIGHTS EQUITY SHARES.

ASBA	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!
*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.	

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CIR/CFD/DIL/67/2020 dated April 21, 2020, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, and SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 (Collectively hereafter referred to as “SEBI Rights Issue Circulars”) and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as “ASBA Circulars”), all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see “Making of an Application through the ASBA Process” on page 152 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to procedure for participating in this Issue mentioned on page 198 of the Letter of Offer. Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely SUSPENSE ESCROW DEMAT A/C - BRIGHT SOLAR LIMITED (Account Number – 10097864)

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, i.e. April 10, 2023, shall not be eligible to make an Application for Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details of procedure for application by the Resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date i.e. February 06, 2023, see “Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form” on page 198 of the Letter of Offer.

PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS: A shareholder, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. They may also communicate with the Registrar with the help of the helpline number (+011-40450193-197) and their email address (ipo@skylinert.com).

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE I.E. FEBRUARY 06, 2023.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER (“ALOF”) AND APPLICATION FORM: The Dispatch of the ALOF, the Rights Entitlement letter and Application Form for the Issue has been completed in electronic mode through email on March 28, 2023 and physically through registered post on March 28, 2023 by the Registrar to the Issue.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialized form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, “Vaxfab Enterprises Limited Rights Issue – Suspense Escrow Demat Account”) opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the UNITED STATES.

APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSBs for authorizing such SCSBs to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSBs. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder, including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of SCSBs before the Issue Closing Date and after the specified the following particulars:

- Name of our Company, being Bright Solar Limited
- Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
- Registered Folio Number/DP and Client ID No.;
- Number of Equity Shares held as on Record Date;
- Allotment option – only dematerialised form;
- Number of Rights Equity Shares entitled to;
- Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
- Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any;
- Total number of Rights Equity Shares applied for;
- Total Application Money paid at the rate of Rs. 10/- per Rights Equity Share;
- Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSBs;
- In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address and branch of the SCSBs with which the account is maintained;
- Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue;
- The authorisation to the Designated Branch of the SCSBs to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
- Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSBs); and
- All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

“I/ We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”), or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the “United States”), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/ we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the US Securities Act (“Regulation S”) to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions.

I/ we understand that the Issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/ we confirm that I/ am/ we are (a) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar or any other person acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and United States and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction.

I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/ We satisfy, and each account for which I/ we are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence.

I/ we hereby make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in the section of the Letter of Offer.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/ We acknowledge that we, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements.”

In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at <https://irights.cameoindia.com/vaxfab>.

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded